

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 118]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 18 फरवरी 2020 — माघ 29, शक 1941

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 27 जनवरी 2020

अधिसूचना

क्रमांक/पंचा.-307/पंचाविधि/22/2020/392(A)/.— छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1994 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (3) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है की जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, उपसचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्रमांक एडी-025, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

1. नियम 3 में, उप-नियम (1) में, शब्द “पंचों” के पश्चात्, चिन्ह एवं शब्द “/ग्रामसभा के सदस्यों” का लोप किया जाये।
2. नियम 3 में, उप-नियम (2) में,—
 - (एक) द्वितीय परन्तुक में, कोलन चिन्ह “:” के स्थान पर पूर्ण विराम चिन्ह “।” प्रतिस्थापित किया जाये; और
 - (दो) तृतीय परन्तुक का लोप किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक चौबे, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 27th January 2020

NOTIFICATION

No./Panch.-307/PGVV/22/2020/392(A)/. — The following further draft amendment in the Chhattisgarh Gram Panchayat (Term of Office of Members of Standing Committee and Procedure for the Conduct of Business) Rules, 1994 which the State Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), is hereby, published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of fifteen days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person, before the specified period during office hours by the office of the Deputy Secretary, Department of Panchayat and Rural Development, Government of Chhattisgarh, Room No. AD-025, Mahanadi Bhawan, Mantralay, Nawa Raipur, Atal Nagar, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 3, in sub rule (1), after the word "Pancho", the symbol and words "/ Members of Gram Sabha" shall be omitted.
2. In rule 3, in sub rule (2),-
 - (i) in second proviso, for the punctuation colon ":" the punctuation full stop "." shall be substituted; and
 - (ii) third proviso shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ASHOK CHOUBEY, Deputy Secretary.